

## प्रेस-नोट

जनपद के समस्त कृषक भाइयों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के सतत उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीफ 2018 में धान के सामान्य प्रजातियों (10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित प्रजातियाँ) के प्रमाणित बीजों के वितरण पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 2600रु0/कुं0 अथवा बीज मूल्य का 50 प्रतिशत एवं सामान्य धान के 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित प्रजातियों पर कुल 1300रु0/कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो की दर से देय अनुदान पर जनपद के समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डारों से कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद की अन्य संस्था सहकारिता, एग्री, बीज विकास निगम एवं एन0एन0सी0 के बीज विक्रय केन्द्रों पर कृषकों के लिए यह व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार संकर धान बीज के समस्त अधिसूचित प्रजातियों पर 15000रु0/कुं0 अथवा बीज मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की अनुदानित दर पर कम्पनियों द्वारा जनपद के समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर स्टाल लगाकर कृषकों को संकर धान का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदान की धनराशी डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जायेगी। बीजों का वितरण “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जा रहा है। अतः कृषक भाइयों से अनुरोध है कि अपने नजदीकी कृषि बीज भण्डार अथवा उक्त संस्थाओं के विक्रय केन्द्रों से बीज प्राप्त कर, देय अनुदान की सुबिधा का लाभ उठायें।

(डा0 अश्वनी कुमार सिंह)

जिला कृषि अधिकारी

इलाहाबाद

## कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांक 731/ कृषि/फ0ऋ0मो0यो0/प्रेस नोट/2018-19/ दिनांक 4 जून, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस नोट को जनहित में जनपद के समस्त दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, इलाहाबाद ।
3. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, इलाहाबाद।
4. जिला प्रबन्धक, यू0पी0एग्री, इलाहाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0बीज विकास निगम, एवं एन0एस0सी0, इलाहाबाद।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद को अवलोकनार्थ।

जिला कृषि अधिकारी

इलाहाबाद